

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2016—श्रावण 5 शक 1938

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन,  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल 462 011  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-65-01-2016-तीन-नपा-470.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् मैहर, जिला सतना के माह जुलाई 2016 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्र. | नगरपालिका परिषद्<br>का नाम, जिले<br>का नाम सहित | पद<br>अर्थात्<br>अध्यक्ष/<br>पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल<br>पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति<br>का नाम | दल से सम्बद्धता             |                       |
|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| (1)  | (2)   | (3)                                 | अंकों में                         | शब्दों में                  | (6)                         | (7)                   |
| 1.   | नगरपालिका परिषद्<br>मैहर, जिला सतना.            | अध्यक्ष                             | -                                 | -                           | धर्मेस घई (रोमी)            | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 2.   |   | पार्षद                              | 1                                 | एक                          | प्रमोद सिंह                 | भारतीय जनता पार्टी    |
| 3.   |   | पार्षद                              | 2                                 | दो                          | गुलाब बाई भागचन्द कोरी      | भारतीय जनता पार्टी    |
| 4.   |   | पार्षद                              | 3                                 | तीन                         | सितलिया रामू कोल            | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5.   |   | पार्षद                              | 4                                 | चार                         | सिंधुजा अंकित सोनकिया       | भारतीय जनता पार्टी    |
| 6.   |   | पार्षद                              | 5                                 | पांच                        | प्रभात कुमार द्विवेदी (ददा) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7.   |   | पार्षद                              | 6                                 | छः                          | श्रीमती संतोष चौरसिया       | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

| (1) | (2)    | (3)    | (4) | (5)     | (6)                        | (7)                   |
|-----|--------|--------|-----|---------|----------------------------|-----------------------|
| 8.  | पार्षद | पार्षद | 7   | सात     | चूड़ामणि बढोलिया           | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9.  | पार्षद | पार्षद | 8   | आठ      | हुमा अलीम                  | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10. | पार्षद | पार्षद | 9   | नौ      | मुन्ना रमेश प्रजापति       | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11. | पार्षद | पार्षद | 10  | दस      | “अरूणा लल्लू तिवारी”       | भारतीय जनता पार्टी    |
| 12. | पार्षद | पार्षद | 11  | ग्यारह  | रामराज सिंह उर्फ राजबाबू   | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13. | पार्षद | पार्षद | 12  | बारह    | “पुरुषोत्तम चौरसिया”       | भारतीय जनता पार्टी    |
| 14. | पार्षद | पार्षद | 13  | तेरह    | मधू संतोष चौरसिया          | भारतीय जनता पार्टी    |
| 15. | पार्षद | पार्षद | 14  | चौदह    | श्रीमती ज्योति दशरथ यादव   | भारतीय जनता पार्टी    |
| 16. | पार्षद | पार्षद | 15  | पन्द्रह | श्रीमती रिया दिनेश सावलानी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 17. | पार्षद | पार्षद | 16  | सोलह    | बारिक भाई                  | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 18. | पार्षद | पार्षद | 17  | सत्रह   | नितिन ताम्रकार             | भारतीय जनता पार्टी    |
| 19. | पार्षद | पार्षद | 18  | अठारह   | शशी देवी चौधरी             | बहुजन समाज पार्टी     |
| 20. | पार्षद | पार्षद | 19  | उन्नीस  | नागेन्द्र बड़गइयाँ(लाला)   | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 21. | पार्षद | पार्षद | 20  | बीस     | जय प्रकाश                  | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 22. | पार्षद | पार्षद | 21  | इक्कीस  | अंजु संजय पाण्डेय          | भारतीय जनता पार्टी    |
| 23. | पार्षद | पार्षद | 22  | बाईस    | संजय चौरसिया               | भारतीय जनता पार्टी    |
| 24. | पार्षद | पार्षद | 23  | तेईस    | किरण कुमार                 | भारतीय जनता पार्टी    |
| 25. | पार्षद | पार्षद | 24  | चौबीस   | अंकिता सिंह                | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-65-01-2016-तीन-नपा-471.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद् मंडीदीप, जिला रायसेन के माह जुलाई 2016 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्र. | नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम    | दल से सम्बद्धता       |
|------|---|---------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| (1)  | (2)                                       | (3)                       | (4)                                      | (5)                                       | (6)                         | (7)                   |
| 1.   | नगरपालिका परिषद् मंडीदीप, जिला रायसेन     | अध्यक्ष                   | -  | -   | बद्री सिंह चौहान (दादा भाई) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

| (1) | (2)   | (3)    | (4) | (5)     | (6)                                     | (7)                   |
|-----|---|--------|-----|---------|---|-----------------------|
| 2.  | नगरपालिका परिषद्<br>मंडीदीप,<br>जिला रायसेन | पार्षद | 1   | एक      | श्रीमति पिकी नरेन्द्र पाल               | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3.  |   | पार्षद | 2   | दो      | श्रीमति सुरेश बाई ज्ञान सिंह तोमर       | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4.  |   | पार्षद | 3   | तीन     | गुलाब सिंह                              | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5.  |   | पार्षद | 4   | चार     | श्रीमति सावित्री प्रजापति               | भारतीय जनता पार्टी    |
| 6.  |   | पार्षद | 5   | पांच    | श्री अख्तर अली                          | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7.  |   | पार्षद | 6   | छः      | श्री वीरेन्द्र जगदीश मीना               | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8.  |   | पार्षद | 7   | सात     | श्री कमलेश कुमार मारन                   | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9.  |   | पार्षद | 8   | आठ      | मनोरमा मूलचंद राठौर                     | भारतीय जनता पार्टी    |
| 10. |   | पार्षद | 9   | नौ      | श्री शाहिद अली (मामू)                   | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11. |   | पार्षद | 10  | दस      | श्रीमति ममता सुनील मालवीय               | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12. |   | पार्षद | 11  | ग्यारह  | श्री चंद्रप्रकाश तोमर                   | भारतीय जनता पार्टी    |
| 13. |   | पार्षद | 12  | बारह    | प्रार्थना चौहान                         | भारतीय जनता पार्टी    |
| 14. |   | पार्षद | 13  | तेरह    | श्रीमति ज्योति नीलेश वर्मा              | भारतीय जनता पार्टी    |
| 15. |   | पार्षद | 14  | चौदह    | सुशील शर्मा                             | भारतीय जनता पार्टी    |
| 16. |   | पार्षद | 15  | पन्द्रह | श्रीमती ममता भगवत<br>सिन्ह चौहान (फौजी) | भारतीय जनता पार्टी    |
| 17. |   | पार्षद | 16  | सोलह    | श्रीमति विमला मुकेश मेहर                | भारतीय जनता पार्टी    |
| 18. |   | पार्षद | 17  | सत्रह   | श्री राकेश लोवंशी                       | भारतीय जनता पार्टी    |
| 19. |   | पार्षद | 18  | अठारह   | श्री महाराम अहिरवार                     | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 20. |   | पार्षद | 19  | उन्नीस  | सुरेश मैना श्री हजारि                   | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 21. |   | पार्षद | 20  | बीस     | शहाना इकबाल                             | भारतीय जनता पार्टी    |
| 22. |   | पार्षद | 21  | इक्कीस  | मेघश्याम नागर                           | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 23. |   | पार्षद | 22  | बाईस    | रेखा जगदीश मीणा                         | निर्दलीय              |
| 24. |   | पार्षद | 23  | तेईस    | राम कुमार खत्री                         | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 25. |   | पार्षद | 24  | चौबीस   | भावना अजीत सिंह मीना                    | भारतीय जनता पार्टी    |
| 26. |   | पार्षद | 25  | पच्चीस  | मनीराम पुत्र हंसाराम                    | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 27. |   | पार्षद | 26  | छब्बीस  | शकुन बाई लालसिंह                        | भारतीय जनता पार्टी    |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्रमांक एफ-65-01-2016-तीन-नपा-472.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् ईसागढ़, जिला अशोकनगर के माह जुलाई 2016 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु |            | निर्वाचित व्यक्ति का नाम    | दल से सम्बद्धता       |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| (1)     | (2)                                 | (3)                       | अंकों में                      | शब्दों में | (6)                         | (7)                   |
| 1.      | नगर परिषद् ईसागढ़, जिला अशोकनगर.    | अध्यक्ष                   | -                              | -          | भूपेन्द्र द्विवेदी          | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 2.      |                                     | पार्षद                    | 1                              | एक         | श्री रामदयाल ग्वाल          | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3.      |                                     | पार्षद                    | 2                              | दो         | छोटू कुशवाह                 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4.      |                                     | पार्षद                    | 3                              | तीन        | अनीता दुष्यंत साहू          | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5.      |                                     | पार्षद                    | 4                              | चार        | भगवत दयाल नेताजी            | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6.      |                                     | पार्षद                    | 5                              | पांच       | जितेन्द्र (जौली)            | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7.      |                                     | पार्षद                    | 6                              | छः         | किरण संतोष सेन              | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8.      |                                     | पार्षद                    | 7                              | सात        | दीप्ती महादेव यादव          | भारतीय जनता पार्टी    |
| 9.      |                                     | पार्षद                    | 8                              | आठ         | बिंदिया जाटव                | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10.     |                                     | पार्षद                    | 9                              | नौ         | संध्या गोविन्द सोनी         | भारतीय जनता पार्टी    |
| 11.     |                                     | पार्षद                    | 10                             | दस         | गोरी बाई मुकेश              | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12.     |                                     | पार्षद                    | 11                             | ग्यारह     | नत्थू हल्लू                 | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13.     |                                     | पार्षद                    | 12                             | बारह       | सुखवती केवट                 | भारतीय जनता पार्टी    |
| 14.     |                                     | पार्षद                    | 13                             | तेरह       | मुन्नीबाई लियाकत खां नेताजी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 15.     |                                     | पार्षद                    | 14                             | चौदह       | भानुसिंह लोधी               | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16.     |                                     | पार्षद                    | 15                             | पन्द्रह    | रामप्रसाद                   | भारतीय जनता पार्टी    |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( गिरीश शर्मा )

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.